



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1154 राँची, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

28 नवम्बर, 2018

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-164/2017 का. 8666-- श्री चन्दन, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5337, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-12015, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री चन्दन को निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

3. श्री चन्दन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2431, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया गया।

4. इस प्रकार, श्री चन्दन दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 से दिनांक 11 अप्रैल, 2018 तक निलंबित रहे हैं, अतः समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 से दिनांक 11 अप्रैल, 2018 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
